

## जिला जन संपर्क कार्यालय, होशंगाबाद

### समाचार

#### श्वानों के लिए निःशुल्क टीकाकरण शिविर 6 जुलाई को श्वान पालकों से टीकाकरण शिविर का लाभ उठाने की अपील

होशंगाबाद/05,जुलाई,2019/ विश्व जूनोटिक रोग दिवस के अवसर पर पशु पालन विभाग होशंगाबाद एवं इंडियन इम्यूनोलॉजिकल कंपनी के सहयोग से श्वानों में निःशुल्क एंटी रैबीज टीकाकरण शिविर का आयोजन संभागीय पशु चिकित्सालय होशंगाबाद में 6 जुलाई 2019 को प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक किया जायेगा।

संभागीय पशु चिकित्सालय के प्रभारी डॉ.शैलेन्द्र नेमा ने बताया कि जूनोटिक रोग वे रोग होते हैं जो कि पशुओं से मनुष्यों में एवं मनुष्यों से पशुओं में फैलते हैं। जिसमें से रैबीज एक घातक जूनोटिक रोग है जो श्वानों एवं इससे संबंधित प्रजातियों के द्वारा मनुष्य को काटने से होता है। श्वानों को रैबीज रोग से बचाव के लिए एंटी रैबीज टीकाकरण कराना अतिआवश्यक है ताकि श्वान के साथ-साथ मनुष्य की सुरक्षा भी की जा सके। श्वानों में प्रतिवर्ष एंटी रैबीज टीकाकरण कराना आवश्यक होता है। एक बार इस रोग के लक्षण प्रकट होने पर इस बीमारी का कोई उपचार संभव नहीं है।

उप संचालक पशुचिकित्सा सेवार्यें होशंगाबाद डॉ.केके देशमुख ने सभी श्वान पालकों से अपील की है कि वे इस अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में शिविर में आकर अपने श्वानों का टीकाकरण कराकर शिविर का लाभ उठाएं।

26-1311

0000

#### जिले में अभी तक 146.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज

होशंगाबाद/05,जुलाई,2019/ होशंगाबाद जिले में 1 जून से आज 5 जुलाई को प्रातः 8 बजे तक 146.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है। जबकि इसी अवधि में गत वर्ष 152.3 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई थी। अधीक्षक भू अभिलेख कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 जुलाई को प्रातः 8 बजे तक जिले में 3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें तहसील होशंगाबाद में 1.6 मिलीमीटर, सिवनीमालवा में 2, बाबई में 4, पिपरिया में 5, बनखेड़ी में 6, डोलरिया में 1.4 एवं सबसे अधिक पमचढ़ी में 7.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इटारसी एवं सोहागपुर में इस दौरान वर्षा दर्ज नहीं हुई है। जिले की औसत सामान्य वर्षा 1311.7 मिलीमीटर है। गत वर्ष 1 जून से 15 अक्टूबर 2018 तक जिले में कुल 789.1 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई थी।

जिले में 1 जून से 5 जुलाई तक होशंगाबाद में 111.4, सिवनीमालवा में 140, इटारसी में 68.2, बाबई में 109, सोहागपुर में 224.5, पिपरिया में 171.2, बनखेड़ी में 224.8, डोलरिया में 96 एवं पचमढ़ी में 177.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इसी अवधि में गत वर्ष होशंगाबाद में

126.5, सिवनीमालवा में 183.6, इटारसी में 203.4, बाबई में 65, सोहागपुर में 170, पिपरिया में 169, बनखेड़ी में 84.8, एवं पचमढी में 216.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी।

सेठानीघाट का एलार्म स्तर 964 फीट है एवं खतरे का जल स्तर 967 फीट है। वर्तमान में नर्मदा का जल स्तर 935.30 फीट है। इसी तरह से तवा का अधिकतम जल स्तर 1166 फीट है, जबकि वर्तमान स्थिति में तवा जलाशय का जल स्तर 1110.10 फीट है। इसी तरह से बरगी जलाशय का अधिकतम जल स्तर 422.76 मीटर है जबकि वर्तमान में बरगी जलाशय का जल स्तर 412.75 मीटर है। वहीं बारना जलाशय का अधिकतम जल स्तर 348.55 मीटर है वर्तमान में बारना जलाशय का जल स्तर 337.48 मीटर है।

26-1311

0000